



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt.ofHaryana

No. 175-2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 15, 2018 (ASVINA 23, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 अक्टूबर, 2018

संख्या 91/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं ।
(2) ये नियम 23 अक्टूबर, 2017 से लागू हुए समझे जाएंगे ।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 96 में, उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर प्रदायकर्ता ने हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 115/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 या हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 117/एसटी-2, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017, या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1321(अ), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 41/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 78/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 79/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के लाभ का उपयोग किया है।”।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 15th October, 2018

No. 91/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 23rd October, 2017.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 115/ST-2, dated the 18th October, 2017 or Notification No. 117/ST-2, dated the 24th October, 2017, or Notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 or Notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or Notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 1299 (E) dated the 13th October, 2017.”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.